

आर.पी.एस.सी मुख्य परीक्षा-2021 सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II) RPSC Mains Exam-2021 General Studies (Question Paper-II)



RAS-2021/GS-II

सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न-पत्र

GENERAL STUDIES PAPER-II

(यूनिट-I)/(Unit-I)

(65 अंक)/(65 Marks)

भाग-अ/Part -A

अंक : 10/Marks:10

नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 50-50 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित हैं। Note: Attempt all questions. Answer the following questions in 50 words each. Each question carries 5 marks.

	di			
	CThe	Vision		
बुद्ध की व	हौन-सी शिक्षा आज स	र्वाधिक प्रासंगिक है अं	ौर क्यों?	
		र्वाधिक प्रासंगिक है अं re most relevant toda		



3. नैतिक द्वन्द्व से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by ethical dilemma?
4. प्रशासनिक जीवन में 'ऋण' के नैतिक आदर्श की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए।
Explain the relevance of ethical idea of 'Rina' in the administrative life.
5. भगवद्गीता का 'अनासिक्त सिद्धान्त' किस रूप में एक प्रशासक के जीवन में सार्थक है?
What way 'detachment theory' of Bhagvad Geeta is significant in the life of an administrator?



अंक: 25/Marks: 25

नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 50-50 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित हैं। Note: Attempt all questions. Answer the following questions in 50 words each. Each question carries 5 marks.

amily is the most in	nportant institution	for the moral. dev	relopment of mar	n". Evaluate this st	atement.
	गरिवार मनुष्य के नैतिव	गरिवार मनुष्य के नैतिक विकास की सबसे [:]		ारिवार मनुष्य के नैतिक विकास की सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था है।" इस क <mark>थन की स</mark>	The Vision परिवार मनुष्य के नैतिक विकास की सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था है।" इस कथन की समीक्षा कीजिए। Samily is the most important institution for the moral. development of man". Evaluate this st



8. कांट किस प्रकार सापेक्ष एवं निरपेक्ष आदेश के आधार पर अंतिम शुभ की व्याख्या करता है।
Explain the Kant's ultimate good on the basis of relative and categorical imperative.
9. आमतौर पर <mark>एक स्वस्थ औ</mark> र उत्पादक <mark>जीवन जी</mark> ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या मानी गयी हैं? इन न्यूनतम को सु <mark>निश्चित</mark> करने में एक प्रशासक की क्या जिम्मेदारी है?
What are generally considered to be the minimum basic needs of an individual to lead a healthy and productive
life? What is the administrators responsibility in ensuring these minimums?



10. लोक सेवा की उत्कृष्टता के लिए आवश्यक प्रमुख नैतिक मूल्य कौन से हैं?
What are the core ethical values required for excellence in civil service?
The Vision
भाग-स

Part-C

Marks: 40

अंक: 40

नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 100-100 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित हैं। Note: Attempt All questions. Answer the following questions in 100 words each. Each question carries 10 marks.

11. "अनिवार्यत: सम्बन्धित होने के कारण साधनों को साक्ष्य से पृथक नहीं किया जा सकता, अत: वास्तविक और स्थाई सफलता के लिए दोनों का शुभ होना आवश्यक है।" गाँधी नीतिशास्त्र के सन्दर्भ में उक्त टिप्पणी को स्पष्ट करें। "Necessarily related, means cannot be separated from ends. Therefore, both must be auspicious for real and lasting success." Explain the above comment in the context of Gandhian ethics.



The Vision

·



E	xplain the fa	तमन्वय करेंगे ctors essen	tial in "Ethica	l decision" mal	king. In cas	e of ethical deci	ision being again
ac	dministrative	decision, ho	ow will you ha	rmonise them?	Explain with	n examples.	
1							
		STh	e Visi	on 📗			



1	ne vision		
		_	



(यूनिट-II)/(Unit-II)

			((70 अक)	'(70 Marl	ks)			
				भाग-अ	Part -A				
								अंक : 10	/Marks :
							न के 2 अंक f ach. Each que		2 marks
1. नाभि	मकीय विखण	डन एवं संलय	गन को विभेदि	त कीजिए।					
Diff	ferentiate b	etween nucl	ear fission a	nd fusion.					
			de						
		Th	e Vis	ion	4				
			ने में कैल्शिय				कीजिए।		
Exp	plain the rol	le of calciun	n carbide in t	the artificial	ripening	of fruits.			



3.	ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म क्या है? What is an OTT platform?
4.	आर.एफ.आई.डी. प्रचालन का मूल सिद्धान्त क्या है? इस तकनीक के दो उपयोग दीजिए।
	What is the basic concept of operation of RFID? Give two application of this technology.
	The Vision
5	धुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान में क्या अंतर है?
٥٠	What is the difference between Polar Satellite launch vehicle and Geosynchronous Satellite launch vehicle



Part-B

भाग-ब
अंक: 20/Marks: 20 नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 50-50 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित हैं। Note: Attempt all questions. Answer the following questions in 50 words each. Each question carries 5 marks.
6. औषधीय पौधे - गुडूची/गिलोय के कोई पाँच लाभ लिखिए। Write any five benefits of the medicinal plant - Guduchi/Giloy.
The Vision
7. क्रिप्टोकरेन्सी क्या है? इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? What is Cryptocurrency? What are its advantages and disadvantages?



			र्ज een the previo	क्या अंतर है? ous generation	s of mobile	e networks an	d 5G Netwo	ork?
vv Hat e	ire the differ	ences seew	cen me previe	rus generation	is of moon	TICLW OTRS WIT	a yo memo	TIK.
					-			
	G							
9. मिसाइल	और सामरिव	ह प्रणाली (ए	म.एस.एस.) क	ा उद्देश्य लिखिए	ए। एम.एस.एर	व. क्लस्टर में इ	शामिल प्रयोगश	गालाओं के
लिखिए। Write t		e of Missiles	s and Strategi	c System (MS	SS). Name	the laboratori	es which co	mprises l
clustre					,			1



ट: सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 100-100 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित हैं। ote: Attempt all questions. Answer the following questions in 100 words each. Each question carries 10 mar		
अंक : 40/Marks : ट: सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 100-100 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित हैं। ote: Attempt all questions. Answer the following questions in 100 words each. Each question carries 10 mar 10. (a) कार्बन का कौन-सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? (b) कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। (c) प्रत्येक के उदाहरण दीजिए- (i) कृत्रिम मधुरक (ii) खाद्य संरक्षक (iii) खिंक के अयस्क (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives		
अंक : 40/Marks : ट: सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 100-100 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित हैं। ote: Attempt all questions. Answer the following questions in 100 words each. Each question carries 10 mar 10. (a) कार्बन का कौन-सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? (b) कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। (c) प्रत्येक के उदाहरण दीजिए- (i) कृत्रिम मधुरक (ii) खाद्य संरक्षक (iii) जिंक के अयस्क (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives		
अंक : 40/Marks : ट: सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 100-100 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित हैं। ote: Attempt all questions. Answer the following questions in 100 words each. Each question carries 10 mar 10. (a) कार्बन का कौन-सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? (b) कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। (c) प्रत्येक के उदाहरण दीजिए- (i) कृत्रिम मधुरक (ii) खाद्य संरक्षक (iii) जिंक के अयस्क (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives		
अंक : 40/Marks : ट: सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 100-100 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित हैं। ote: Attempt all questions. Answer the following questions in 100 words each. Each question carries 10 mar 10. (a) कार्बन का कौन-सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? (b) कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। (c) प्रत्येक के उदाहरण दीजिए- (i) कृत्रिम मधुरक (ii) खाद्य संरक्षक (iii) जिंक के अयस्क (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives		
अंक : 40/Marks : ट: सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 100-100 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित हैं। ote: Attempt all questions. Answer the following questions in 100 words each. Each question carries 10 mar 10. (a) कार्बन का कौन-सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? (b) कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। (c) प्रत्येक के उदाहरण दीजिए- (i) कृत्रिम मधुरक (ii) खाद्य संरक्षक (iii) जिंक के अयस्क (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives		
अंक : 40/Marks : ट: सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 100-100 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित हैं। ote: Attempt all questions. Answer the following questions in 100 words each. Each question carries 10 mar 10. (a) कार्बन का कौन-सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? (b) कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। (c) प्रत्येक के उदाहरण दीजिए- (i) कृत्रिम मधुरक (ii) खाद्य संरक्षक (iii) जिंक के अयस्क (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives		
अंक : 40/Marks : ट: सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 100-100 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित हैं। ote: Attempt all questions. Answer the following questions in 100 words each. Each question carries 10 mar 10. (a) कार्बन का कौन-सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? (b) कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। (c) प्रत्येक के उदाहरण दीजिए- (i) कृत्रिम मधुरक (ii) खाद्य संरक्षक (iii) जिंक के अयस्क (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives		
अंक : 40/Marks : ट: सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 100-100 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित हैं। ote: Attempt all questions. Answer the following questions in 100 words each. Each question carries 10 mar 10. (a) कार्बन का कौन-सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? (b) कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। (c) प्रत्येक के उदाहरण दीजिए- (i) कृत्रिम मधुरक (ii) खाद्य संरक्षक (iii) जिंक के अयस्क (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives		
अंक : 40/Marks : ट: सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 100-100 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित हैं। ote: Attempt all questions. Answer the following questions in 100 words each. Each question carries 10 mar 10. (a) कार्बन का कौन-सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? (b) कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। (c) प्रत्येक के उदाहरण दीजिए- (i) कृत्रिम मधुरक (ii) खाद्य संरक्षक (iii) जिंक के अयस्क (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives		
अंक : 40/Marks : ट: सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 100-100 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित हैं। ote: Attempt all questions. Answer the following questions in 100 words each. Each question carries 10 mar 10. (a) कार्बन का कौन-सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? (b) कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। (c) प्रत्येक के उदाहरण दीजिए- (i) कृत्रिम मधुरक (ii) खाद्य संरक्षक (iii) जिंक के अयस्क (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives		
ट: सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 100-100 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित हैं। ote: Attempt all questions. Answer the following questions in 100 words each. Each question carries 10 mar 10. (a) कार्बन का कौन-सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? (b) कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। (c) प्रत्येक के उदाहरण दीजिए- (i) कृत्रिम मधुरक (ii) खाद्य संरक्षक (iii) जिंक के अयस्क (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives		भाग-स/Part-C
ote: Attempt all questions. Answer the following questions in 100 words each. Each question carries 10 mar 10. (a) कार्बन का कौन-सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? (b) कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। (c) प्रत्येक के उदाहरण दीजिए- (i) कृत्रिम मधुरक (ii) खाद्य संरक्षक (iii) जिंक के अयस्क (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives		अंक : 40/Marks :
10. (a) कार्बन का कौन-सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? (b) कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। (c) प्रत्येक के उदाहरण दीजिए- (i) कृत्रिम मधुरक (ii) खाद्य संरक्षक (iii) जिंक के अयस्क (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives	ट:	सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 100-100 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित हैं।
(b) कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। (c) प्रत्येक के उदाहरण दीजिए- (i) कृत्रिम मधुरक (ii) खाद्य संरक्षक (iii) जिंक के अयस्क (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives	ote:	Attempt all questions. Answer the following questions in 100 words each. Each question carries 10 mark
(b) कार्बन यौगिकों के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। (c) प्रत्येक के उदाहरण दीजिए- (i) कृत्रिम मधुरक (ii) खाद्य संरक्षक (iii) जिंक के अयस्क (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives	10	(a) कार्बन का कौन-मा <mark>गा</mark> ग बरी मंख्या में गौगिकों के निर्माण के खिए उन्हारण है?
(c) प्रत्येक के उदाहरण दीजिए- (i) कृत्रिम मधुरक (ii) खाद्य संरक्षक (iii) जिंक के अयस्क (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives	10.	
(ii) कृत्रिम मधुरक (iii) खाद्य संरक्षक (iii) जिंक के अयस्क (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives		
(ii) खाद्य संरक्षक (iii) जिंक के अयस्क (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives		
(iii) जिंक के अयस्क (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives		
 (a) Which property of carbon is responsible for formation of large number of compounds? (b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds. (c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives 		
(b) Write domestic and industrial applications of carbon compounds.(c) Give an example of each(i) Artificial sweeteners(ii) Food preservatives		
(c) Give an example of each (i) Artificial sweeteners (ii) Food preservatives		
(ii) Food preservatives		
		(i) Artificial sweeteners
(iii) Ores of zinc		(ii) Food preservatives
		(iii) Ores of zinc
	_	



		T G				
-		The Vi	sion			
	गानव आँख की का याख्या करें।	र्यप्रणाली का वर्णन व	करें और दृष्टि के वि	ज्सी एक अपवत	कि दोष और उसके	सुधारात्मक उपाय
D		etioning of the hum	nan eye and explain	n any one of t	he refractive defe	cts of vision and
CC	orrective measur	e.				



The Vigion	
12. रीयल टाइम-पीसीआर की अवधारणा की व्याख्या करें। कोविड-1	19 के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट में 'सीटी वैल्यू' व
है?	<u> </u>
	DE DOD TO A CONTRACTOR
Explain the concept of real time-PCR. What is 'Ct value' is	n RI-PCR Test for Covid-19?



Th	e Vision		
. निम्नलिखित भारतीय वैज्ञानिकों	के योगदान का उल्लेख करें-		
(i) होमी जहाँगीर भाभा	(ii) सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वं	र्या	
(iii) सत्येंद्र नाथ बोस	(iv) मेघनाद साहा	(v) हर गोविंद खुराना	
Mention the contribution of (i) Homi Jehangir Bhabha	the following Indian Sciential (ii) Sir Mokshagundam		
(iii) Satyendra Nath Bose	(iv) Meghnad Saha	(v) Har Gobind Khorana	



<u> </u>
The Vision
2100 / 1331011
(यूनिट-III)/ (Unit-III)
(65 अंक)/(65 Marks)
भाग-अ/Part-A
अंक: 10/Marks: 10
अक: 10/Marks: 10
नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 15-15 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं।
Note: Attempt all questions. Answer the following questions in 15 words each. Each question carries 2 marks
1 Hold days are all array after factors.
1. मेसोज़ोइक युग की समय सीमा लिखिए।
Write about time range of Mesozoic era.



2. सियाल की संरचना के बारे में लिखिए। Write about the structure of Sial. 3. शिवालिक हिम्मलय का निर्माण केंसे हुआ? How Shivalik Himalayas was formed? 4. पश्चिमी चाट की पर्वत श्रेणियाँ/पहाहियों के नाम लिखिए। Write the names of Mountain Ranges/Hills of Western Ghats.	
Write about the structure of Sial. 3. शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? How Shivalik Himalayas was formed? 4. पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों/पहाड़ियों के नाम लिखिए।	2 सियाल की संरचना के बारे में लिखिए।
3. शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? How Shivalik Himalayas was formed? 4. पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों,पहाड़ियों के नाम लिखिए।	
How Shivalik Himalayas was formed? The Vision 4. पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों/पहाड़ियों के नाम लिखिए।	
How Shivalik Himalayas was formed? The Vision 4. पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों/पहाड़ियों के नाम लिखिए।	
How Shivalik Himalayas was formed? The Vision 4. पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों/पहाड़ियों के नाम लिखिए।	
How Shivalik Himalayas was formed?	
4. पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों/पहाड़ियों के नाम लिखिए।	
4. पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों/पहाड़ियों के नाम लिखिए।	How Shivalik Himalayas was formed?
4. पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों/पहाड़ियों के नाम लिखिए।	
4. पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों/पहाड़ियों के नाम लिखिए।	
4. पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों/पहाड़ियों के नाम लिखिए।	
4. पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों/पहाड़ियों के नाम लिखिए।	
4. पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों/पहाड़ियों के नाम लिखिए।	
4. पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों/पहाड़ियों के नाम लिखिए।	
4. पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों/पहाड़ियों के नाम लिखिए।	777 X 7° °
	4. पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों/पहाडि्यों के नाम लिखिए।



5. राष	गस्थान के जस्ता उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए।
W	rite the zinc producing areas of Rajasthan.
	भाग-ब/Part-B
	अंक: 10/Marks : 10
	भी प्रश्न <mark>ों के उत्तर</mark> दें। <mark>निम्न प्रश्नों</mark> का उत्तर <mark>50-</mark> 50 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित हैं।
ote: At	ttempt all questions. Answer the following questions in 50 words each. Each question carries 5 marks.
6 ज	गलामुखी क <mark>ी परिप्रशां</mark> त मेखला का वर्णन कीजिए।
	escribe the Circum - Pacific belt of Volcanoes.



7. रॉकी पर्वत श्रेणी की भौगोलिक विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। Discuss in brief the geographical features of Rocky Mountain range.
The Vision
The vision
8. भारत के उष्ण कटिबंधीय वनों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। Discuss the geographical characteristics of Tropical evergreen forest of India.



	तिक विशेषताओं व of Hadoti platea			
2 The	Vision			
1116	VISION			
	ज्ञों के वितरण की ijor metallic min		ef.	



भाग-स/Part-C

अंक: 30/Marks: 30

नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 100-100 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित हैं।
Note: Attempt all questions. Answer the following questions in 100 words each. Each question carries 10 marks.

11. दक्षिणी पूर्वी एशिया की भू-राजनीतिक समस्याओं की विवेचना की Describe the problems of Geopolitics in context of South I	जिए। East Asian co	ountries.	
The Vision			



12. राजस्थान में गैर-परम्परागत ऊर्जा के विकास का विवरण दीजिए।
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.
Describe the development of non-conventional energy in Rajasthan.



	<u> </u>				
१३ भ-धरोहर स्थल	की अवधारणा को स्पष्ट	कीजिए तथा राजस्थान र	ों इसकी संभात	यता पर प्रकाश दाति	ना ।
Explain the con	ncept of Geo-heritage a	and highlight its poter	ntialities in R	ajasthan.	



The Vision
The Vision



